



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 321]  
No. 321]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 1982/कार्तिक 10, 1904  
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 1982/KARTIKA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
( राजस्व विभाग )

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1982

सं० 335/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० कां० नि० 638 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क  
नियम 1944, के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का  
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944  
( 1944 का 1 ) की पहली अनुसूची की मद सं० 26क की उपमद  
(1), (1क) और (1ख) के अन्तर्गत आने वाले तांबे का, उक्त अधि-  
नियम के अधीन उस पर, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से,  
उत्प्रेक्षणीय उत्पाद शुल्क की उतनी रकम से छूट देती है जितनी प्रति मीटरी  
टन तीन हजार रुपए की दर से संगणित रकम से अधिक है।

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख  
भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा० सं० 346/32/82-टी० आर० यू० (सी०शु०)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st November, 1982

NO. 235/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 638(E).—In exercise of the powers conferred by  
sub-rule (1), of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944,  
the Central Government hereby exempts copper, falling under  
sub-items (1), (1a) and (1b) of Item No. 26A of the First  
Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of  
1944), from so much of the duty of excise leviable thereon  
under the said Act at the rate specified in the said First  
Schedule as is in excess of the amount calculated at the  
rate of three thousand rupees per metric tonne.

2. This notification shall be in force upto and inclusive  
of the 15th day of November, 1982.

[F. No. 346/32/82-TRU(Cus)]

## सं० 236/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां० कां० निं० 639 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 26क की उप मद (2) के अन्तर्गत आने वाली तांबे की विनिर्धितियों को उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से, उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम से छूट देती है जितनी प्रति मीटरी टन तीन हजार सात सौ रुपए की दर से संगणित कम से अधिक है।

2 यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा० सं० 346/32/82-टी० आर० यू० (सी० शु०)]

## NO. 236/82-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 639(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts manufactures of copper, falling under sub-item (2) of Item No. 26A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of three thousand and seven hundred rupees per metric tonne.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 15th day of November, 1982.

[F. No. 346/32/82-TRU(Cus.)]

## सं० 237/82-सीमा शुल्क

सां० कां० निं० 640 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 74.01/02 के अन्तर्गत आने वाले अतगढ़े तांबे (परिष्कृत या अपरिष्कृत) को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उस भाग की, जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतनी रकम से छूट देती है जो मूल्य के सत्तर प्रतिशत से अधिक है।

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा० सं० 346/32/82-टी० आर० यू० (सी० शु०)]

## NO. 237/82-CUSTOMS

**G.S.R. 640(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts unwrought copper (refined or not), falling under Heading No. 74.01/02 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of seventy per cent ad valorem.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 15th day of November, 1982.

[F. No. 346/32/82-TRU(Cus.)]

## सं० 238/82-सीमा शुल्क

सां० कां० निं० 641 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 14 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 136/82 सीमा शुल्क तारीख 11 मई, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) क्रम सं० 217 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा,

(ख) क्रम सं० 218 और उसमें सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् 219-सं० 237/82 सीमा शुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1982

[फा० सं० 346/32/82-टी० आर० यू० (सी० शु०)]

## NO. 238/82-CUSTOMS

**G.S.R. 641(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 136/82-Customs, dated the 11th May, 1982, namely:—

In the Schedule to the said notification,—

(a) Serial No. 217 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) after Serial No. 218 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“219. No. 237/82-Customs, dated the 1st November, 1982”.

[F. No. 346/32/82-TRU(Cus.)]

## सं० 239/82-सीमा-शुल्क

सां० कां० निं० 642 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 40-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना से उपाखंड मार्गों में क्रम सं० 34 और उसमें सम्बद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

क्रम सं०	वर्णन
“35.	धातुओं की सीकनहीन नलियों और अन्य बेलनाकार बटकों के विनिर्माण के लिए स्वचासित प्रवाह सम्पन्न मशीन जिसके माध्यम सञ्चालन किया जाता है या न हो।

[फा० सं० 346/32/82-टी० आर० यू०]

जे श्रीधरन, अवर सचिव

## NO. 239/82-CUSTOMS

**G.S.R. 642(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 40-Customs, dated the 1st March, 1978, namely :—

In the Table annexed to the said notification, after Sl. No. 34 and the entries relating thereto, the following Sl.

No. and entries shall be inserted, namely :—

Sl No.	Description
"35.	Automatic flow forming machine for manufacture of seamless tubes and other cylindrical components of metals, with or without numerical control."

[F. No. 346/22/82-TRU]

J. SRIDHARAN, Under Secy.

